

## @Shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य- 27.07.2019

### 07 घण्टे में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जिला चिकित्सालय में चिकित्सक के साथ अभद्रता एवं तोड़ फोड़ करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

आज दिनांक 27.07.19 को डा0 श्री वीरेन्द्र कुमार ई0एम0ओ0 राजकीय मेडीकल कालेज जिला अस्पताल शाहजहाँपुर ने थाना कोतवाली पर आकर लिखित सूचना दी कि दिनांक 26.07.19 को डायल 100 के पुलिस कर्मियों द्वारा घायल अवस्था में मुकेश पुत्र धर्मपाल निवासी न्यू चर्च कालोनी थाना रोजा को जिला अस्पताल लाया गया जिसको मेरे द्वारा अन्य स्टाफ के साथ मलहम पट्टी करने के उपरान्त अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था। मुकेश उपरोक्त के साथ आये 01 महिला सहित 05 व्यक्ति मुझ पर मुकेश को विस्तर पर भेजने के लिये दवाव वनाते हुये गाली गलौच करने लगे तथा सरकारी कार्य में बाधा डालकर अस्पताल में रखी मेज आदि अन्य सामान की तोड़ फोड़ करते हुये जान से मारने की धमकी दी जिस कारण मैं सेवाये देने में असमर्थ हूँ। तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0सं0 403/19 धारा 147/504/353/186/427/506 भादवि व 3(ए) उ0प्र0परि0सेवा कर्मी और चिकि0 परि0 सेवा संस्थान (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधि0 2013 वनाम मोहित आदि 05 नफर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

डा0 एस.एस. चन्नप्पा पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा जिला चिकित्सालय में हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुये अभियोग की विवेचना को गहनता से करने के आदेश दिये तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर फरार अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कडे दिशा- निर्देश दिये गये तथा समीक्षा स्वयं की जाने लगी।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.07.19 को थाना कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था/तलाश वाँछित अभियुक्त में मामूर थी कि मुखविर खास की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 403/19 में वाँछित अभियुक्तगण मोहित आदि 04 नफर को जिला अस्पताल परिसर से घेराबन्दी कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली पर विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. मोहित पुत्र सुरेन्द्र पाल निवासी हथौडा वुजुर्ग थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
2. मोनू पुत्र ओमप्रकाश निवासी हथौडा वुजुर्ग थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
3. धर्मपाल पुत्र सुखलाल निवासी न्यू चर्च कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
4. शिवम पुत्र ओमप्रकाश निवासी मऊखालसा थाना सदरवाजार जनपद शाहजहाँपुर।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव शर्मा एवं समस्त हमराहीगण थाना कोतवाली शाह0।
2. प्रभारी चौकी जिला अस्पताल एवं हमराहीगण थाना कोतवाली शाह0।